

## प्रीलिमिंस फैक्ट्स: 01 अक्टूबर, 2018

### ऐपण (Aipan)

- उत्तराखंड के कुमाऊँ क्षेत्र में बनाया जाने वाला यह भक्ति चित्र भक्तिकला का एक रूप है। इस कला में धार्मिक रूपों, दोहराव वाले ज्यामितीय आकृतियों और प्रकृत-प्रेरित तत्त्वों को बनाने के लिये केवल दो रंग, लाल और सफेद का उपयोग किया जाता है।
- इसकी पृष्ठभूमि लाल मट्टी से तैयार की जाती है, जिसे गेरू कहा जाता है और इस पर चावल के आटे से बने सफेद पेस्ट से आकृतियाँ बनाई जाती हैं।
- पारंपरिक रूप से ऐपण बनाने का कार्य महिलाओं द्वारा किया जाता है जो पूजा स्थल, घर के प्रवेश द्वार और आँगन को सजाने के लिये इसका उपयोग करती हैं। इस कला का अभ्यास अक्सर माँ से बेटी तक परिवारों के माध्यम से आगे बढ़ता है।
- शुभ अवसरों को ताज़ा ऐपण के बनिा अपूरण माना जाता है और वशिष्ट अवसरों पर वभिन्न रूपांकनों का उपयोग किया जाता है। इनमें से कुछ रूपांकन सौभाग्य की प्राप्ति के लिये, कुछ भगवान से आशीर्वाद मांगने या प्रजनन के लिये प्रार्थना करने हेतु बनाए जाते हैं।
- सबसे लोकप्रिय आकृतियों में से एक पवतिर पैरों की आकृति है जो देवी लक्ष्मी का प्रतीक है। अन्य लोकप्रिय आकृतियों में चौकी, मंडप और कलश शामिल हैं, जो प्राकृतिक तत्त्वों जैसे- फूल, पक्षियों और मछली के रूप में बनाए जाते हैं।
- हाल के वर्षों में स्थानीय कलाकार और उद्यमी आगंतुकों हेतु स्मृति चिह्नों के रूप में कपड़े के बैग, लकड़ी की ट्रे, हस्तनिर्मित पेपर नोटबुक इत्यादि को सजाने के लिये इसका उपयोग कर रहे हैं, जिनमें स्थानीय दुकानों से खरीदा जा सकता है।

### प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया

हाल ही में द हट्टि समूह के प्रकाशक और पूर्व प्रमुख संपादक एन. रवी को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष तथा पंजाब केसरी समूह के प्रमुख संपादक वजिय चोपड़ा को इसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

- एन. रवी प्रेस ट्रस्ट समूह के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक वविक गोयनका का स्थान ग्रहण करेंगे।
- एन. रवी अंतरराष्ट्रीय प्रेस संस्थान के भारतीय क्षेत्र के अध्यक्ष और इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट, वियना के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य रहे हैं।
- वह एडिटर्स गलिड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष तथा 2006 से 2008 तक राष्ट्रीय एकता परिषद (National Integration Council) के सदस्य रह चुके हैं।
- एन. रवी ने संवैधानिक और अंतरराष्ट्रीय कानून में स्वरूप पदक सहित कई अकादमिक पुरस्कार भी जीते हैं।
- वह 1972 में द हट्टि में शामिल हुए, जहाँ उन्होंने संवाददाता, एक प्रमुख लेखक, द वाशिंगटन के संवाददाता, उप-संपादक और एक सहयोगी संपादक के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1991 से 2011 तक संपादक और अक्टूबर 2013 से जनवरी 2015 तक प्रमुख संपादक के रूप में काम किया।
- प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (PTI) भारत की प्रमुख समाचार एजेंसी है।
- वर्तमान में, भारत में भारत के कुल न्यूज़ एजेंसी बाज़ार में PTI की हस्तिसेदारी लगभग 90 प्रतिशत है।
- इसे वर्ष 1947 में पंजीकृत किया गया था और 1949 में इसने काम करना शुरू कर दिया।

### शांतिस्वरूप भटनागर पुरस्कार- 2018

अपनी स्थापना दविस के अवसर पर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (Council of Scientific and Industrial Research- CSIR) ने वर्ष 2018 के लिये शांतिस्वरूप भटनागर पुरस्कार प्राप्त करने वाले वजिताओं की सूची जारी की है।

- हर साल 45 वर्ष से कम आयु के कई वैज्ञानिकों को देश भर के वभिन्न संस्थानों से चुना जाता है और पछिले पाँच वर्षों में उनके उत्कृष्ट वैज्ञानिक कार्य के लिये सम्मानित किया जाता है।
- वभिन्न श्रेणियों में इस वर्ष के वजिताओं की सूची इस प्रकार है :

**जीव वजिज्ञान** - डॉ. गणेश नागाराजू (भारतीय वजिज्ञान संस्थान, बंगलूरु) और डॉ. थॉमस पुकाडलि (भारतीय वजिज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान -IISER पुणे)।

**रसायन वजिज्ञान** - डॉ. राहुल बनर्जी तथा डॉ. स्वाधीन कुमार मंडल (IISER कोलकाता)।

**पृथ्वी, वातावरण, सामुद्रिक एवं ग्रहीय विज्ञान** - डॉ. मेदनिनी वेंकट रत्न (राष्ट्रीय वातावरण अनुसंधान प्रयोगशाला, तरिपती) और डॉ. पार्थसारथी चक्रवर्ती (CSIR-राष्ट्रीय सामुद्रिक संस्थान)।

**अभियांत्रिकी विज्ञान** - डॉ. अमति अग्रवाल और डॉ. अश्वनि अनलि गुमास्ते (IIT बॉम्बे)।

**गणितीय विज्ञान** - डॉ. अमति कुमार (IIT दिल्ली) और डॉ. नतिनि सकसेना (IIT कानपुर)।

**चिकित्सा विज्ञान** - डॉ. गणेशन वेंकट सुब्रमण्यम (राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलूरु)।

**भौतिक विज्ञान** - डॉ. अदितिसेन डे (हरीशचंद्र अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद) और डॉ. अंबरीश घोष (भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलूरु)।

## वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR)

- वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विविध क्षेत्रों में अपने अग्रणी अनुसंधान एवं विकास ज्ञानाधार के लिये ज्ञात एक समसामयिक अनुसंधान एवं विकास संगठन है।
- CSIR की स्थापना वर्ष 1942 में की गई थी। यह एक स्वायत्त संस्था है तथा भारत का प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है।
- शमिगो इंस्टीट्यूशनस रैंकिंग वर्ल्ड रिपोर्ट 2014 के अनुसार, विश्व भर के 4851 संस्थानों में CSIR का स्थान 84वाँ है और यह शीर्षस्थ 100 अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में अकेला भारतीय संगठन है। एशिया में CSIR 17वाँ और देश में पहले स्थान पर है।

## महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन तथा महात्मा गांधी म्यूजियम

हाल ही में नई दिल्ली में महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन (Mahatma Gandhi International sanitation Convention) का आयोजन तथा गुजरात में महात्मा गांधी म्यूजियम का उद्घाटन किया गया।

- इस सम्मेलन में 68 भागीदार देशों के मंत्रियों तथा प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
- महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर होने वाले समारोह की शुरुआत के तौर पर अंतरराष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन का आयोजन पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
- महात्मा गांधी संग्रहालय को अल्फ्रेड हाईस्कूल में स्थापित किया गया है, जो महात्मा गांधी के जीवन के प्रारंभिक वर्षों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह गांधीवादी संस्कृति, मूल्यों और दर्शन के बारे में जागरूकता फैलाने में मदद करेगा।